

# RICHFIELD FINANCIAL SERVICES LTD

CIN: L65999WB1992PLC055224

E-mail : [rfsl.nbfc@gmail.com](mailto:rfsl.nbfc@gmail.com), Website: [www.rfsl.co.in](http://www.rfsl.co.in)

Ph:+91 484 4033100

---

Date: **1st August, 2024**

To

The Secretary, Listing Department  
**CSE Limited**  
7, Lyons Range, Dalhousie,  
Murgighata, B B D Bagh,  
Kolkata- 700001  
West Bengal, India  
**CSE Scrip Code : 028162**

The Secretary, Listing Department  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001  
Maharashtra, India  
**Scrip Code:539435**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement regarding delisting of Equity Shares of the company from the Calcutta Stock Exchange Limited.**

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed the copies of the Newspaper advertisement regarding delisting of equity shares of the company from the Calcutta Stock Exchange Limited published in the newspapers (**Financial Express, Jansatta and Arthik Lipi**) on **1st August, 2024**.

We request you to kindly take the aforesaid information on record & oblige.

Thanking you,

Yours truly,

For **Richfield Financial Services Limited**

VC

GEORGEKU

TTY

Digitally signed by  
V C GEORGEKUTTY  
Date: 2024.08.01  
17:48:30 +05'30'

**Vadasseril Chacko Georgekutty**

Managing Director

DIN- **09194854**

Encl: **As above**

**Registered Office Address:**2B, Grant Lane, 2nd Floor, Kolkata Kolkata West Bengal 700012

**Corporate Office Address:**Door No. 53/2320-C, First Floor, Ashiyana Building, Subash Chandra Bose Road, Opp. CKCGHS, Ponnurunni, Vytilla- 682019

**CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA**  
(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament)  
**MAHENDERGARH - 123031 (HARYANA)**

Advt. No.: CUH/2024/Estt.Sec./1/583 Date: 31-07-2024

**EMPLOYMENT NOTICE**  
**WALK-IN-INTERVIEW**

Applications are invited from eligible candidates for Guest Faculty positions in various Teaching Departments at Central University of Haryana, Mahendergarh. Eligible Candidates shall appear before selection Committee along with application and supporting documents on the date and place notified on the University Website. For Application Form and other related details please visit University website i.e. [www.cuh.ac.in](http://www.cuh.ac.in)

**REGISTRAR (I/C)**

**TATA POWER**  
(Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2<sup>nd</sup> Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following tender package (Two-part Bidding) in Mumbai.

- Supply of Testing Instruments for 145kV GIS at Parel Receiving Station (Package Reference: CC24VGC029). Interested bidder to submit Tender Fee and Authorization Letter by **1500 Hrs. Monday, 12<sup>th</sup> August 2024.**
- Supply, Inspection and Testing of 33 kV 1 CX 630 sq.mm Cu XLPE and 33 kV 3 CX 400 sq.mm Al XLPE cable for various Transmission Receiving Station. (Package Reference: CC25MSJ027). Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter up to **1500 Hrs. Thursday, 08<sup>th</sup> August 2024.**
- Outline Agreement (OLA) of 03 years for Civil Maintenance works at Kalyan and Panvel Circle at Tata Power Transmission Mumbai. (Package Reference: CC25SSVP013). Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter up to **1500 Hrs. Friday, 09<sup>th</sup> August 2024.**

For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Also, all future corrigendum's (if any), to the above tender will be informed on website <https://www.tatapower.com> only.

**TATA POWER**  
(Corporate Contracts Department)

Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173994) CIN: L28920MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST**

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for following Services **CC25FK050 - Guest House Services for Tata Power at Trombay Colony, Electra, NCPA and TPSDI Shahad for a period of two years.**

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before: **9<sup>th</sup> August 2024.**

**RICHFIELD FINANCIAL SERVICES LTD**  
CIN: L65999WB1992PLC055224  
2B, Grant Lane, 2<sup>nd</sup> Floor, Kolkata - 700 012, West Bengal, India  
Tel.: +91-33-30230347, +91-8589996513  
Email: [rfsl.nbfco@gmail.com](mailto:rfsl.nbfco@gmail.com); Website: <https://www.rfsl.co.in/index.html>

**PUBLIC NOTICE**

The Public Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 6(1)(c) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended, the Company is in the process of making application for voluntary delisting of its equity shares from The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE).

**Necessity and object of delisting:**  
To save recurring expenditure on listing fee payable to the Calcutta Stock Exchange Limited where the trading of Company's equity shares is nil. Since Company's equity shares shall continue to be listed on "BSE Limited" (BSE) which is a recognized Stock Exchange and are have nationwide trading terminals, delisting of equity shares from CSE will not be adversely affect the investors.

The Equity Shares of the Company will continue to be listed on the BSE Limited.

**For Richfield Financial Services Ltd**  
Sd/-  
Vadasseri Chacko Georgekutty  
Managing Director  
DIN: 09194854

Date: 31.07.2024  
Place: Kolkata

**KRBL Limited**  
CIN: L01111DL1993PLC052845  
Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006  
Corporate Office: C-32, 5th & 6th Floor, Sector 62, Noida-201301, UP Phone: 0120-4060300;  
Email: [investor@krblindia.com](mailto:investor@krblindia.com); Website: [www.krblirce.com](http://www.krblirce.com)

**PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION TO ALL EQUITY SHAREHOLDERS OF KRBL LIMITED**

**FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2016-17 AND THE UNDERLYING EQUITY SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID/ UNCLAIMED FOR SEVEN CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2016-17 TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND ("IEPF")**

Dear Shareholders,

In pursuance to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the rules"), as amended/modified from time to time, every company is required to mandatorily transfer to the IEPF, the money in the Unpaid Dividend Account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 (seven) years from the date it was transferred to such account.

By this notice we wish to apprise you that pursuant to the said provisions, the final dividend declared by the Company on September 26, 2017 for the financial year 2016-17, which remained unclaimed/unpaid for a period of seven years is due for transfer to the IEPF Fund on **November 02, 2024**. Accordingly, concerned shareholders are requested to kindly take note and claim the unpaid dividend on or before **September 30, 2024** in order to avoid transfer of same in favor of IEPF Authority. A separate communication in this behalf has already been made by the company to the concerned shareholders on their registered contact address/ email ID.

By this Notice, we also draw special attention of those Shareholders whose final dividend is unpaid or unclaimed for 7 (seven) consecutive years beginning financial year 2016-17 onwards. Kindly note that the underlying shares on which dividend was unclaimed/ unpaid for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the rules. In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by September 30, 2024, the company shall, with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules 2016, transfer the Equity Shares along with benefits accrued/ accruing on such shares to IEPF Authority by way of corporate action without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares transferred to IEPF Authority.

The company has already sent individual Notices at the latest available address/ email ID of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for the last 7 (Seven) consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority, advising them to claim the dividend expeditiously. The complete list of such Shareholders to whom communication has been sent along with the details of dividend pertaining to them is available, on the website of the Company at [www.krblirce.com](http://www.krblirce.com) under Investor Relations.

Concerned Shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspend Account and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed to be non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares to the Demat account of the IEPF.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is specific order of Court/Tribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1998.

Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to the IEPF authority can be claimed back from the IEPF authority as per the procedures prescribed under the IEPF Rules 2016

For any further information/clarifications on this matter concerned shareholders may contact the Company at [investor@krblindia.com](mailto:investor@krblindia.com) / [cs@krblindia.com](mailto:cs@krblindia.com) or through call on 0120-4060300 or Company's Registrar and Share Transfer Agent - Alankit Assignments Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 on Tel: 011-42541234 and at email ID: [rsa@alankit.com](mailto:rsa@alankit.com)

For KRBL Limited  
Sd/-  
Piyush Asija  
Company Secretary &  
Deputy Nodal Officer

Place: Noida, Uttar Pradesh  
Date: July 31, 2024

**CyberMedia (India) Limited**  
CIN: L92114DL1982PLC014334  
Registered office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491320  
Corporate office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122003. Tel.:0124-4822222  
Email: [investorcare@cybermedia.co.in](mailto:investorcare@cybermedia.co.in) Website: [www.cybermedia.co.in](http://www.cybermedia.co.in)

**Notice of 42nd Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 22, 2024 at 12:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses as stated in the AGM Notice dated July 23, 2024.

MCA has vide its General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 permitted the holding of Annual General Meeting through VC / OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance of MCA Circulars, relevant provisions of the Act, SEBI Circular and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), AGM of Members of the Company is being held through VC/OAVM.

In compliance with the Act, Rules made thereunder and above Circulars, copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent to all Members of the Company to their email addresses whose email ids are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agent (RTA). Electronic dispatch of the Notice and Annual Report has been completed on July 31, 2024. Annual Report alongwith Notice of AGM is also available on the Company's website: [www.cybermedia.co.in](http://www.cybermedia.co.in), website of stock exchanges, BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and website of Link Intime India Private Limited ("LIPL") at [www.instavote.linkintime.co.in](http://www.instavote.linkintime.co.in).

**Instructions for remote e-voting**

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Regulation 44 of the Listing Regulations, and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its members, facility to cast their votes electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM, proposed to be transacted at the AGM to be held on August 22, 2024. All the Members are hereby informed that the business as set out in the Notice of AGM shall be transacted through electronic means only. The details of remote e-voting are as under:

- Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Monday, August 19, 2024 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 21, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter.
- Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during AGM.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- Member who acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date (i.e. Friday, August 16, 2024) may obtain the User ID and Password by sending at email id: [insta.vote@linkintime.co.in](mailto:insta.vote@linkintime.co.in). However, if the person is already registered with LIPL for remote e-voting, then the existing user id and password can be used for casting the vote.
- Detailed procedure for obtaining user id and password and the instructions on the manner in which e-voting is to be cast, is provided in the Notice of AGM.
- Members may contact for any query or inconvenience or grievances, if any, in voting through electronic mode at the help line of LIPL at 022-49186000 or email at [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) or [insta.vote@linkintime.co.in](mailto:insta.vote@linkintime.co.in).

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Act and rules made thereunder, and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, August 17, 2024 to Thursday, August 22, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

A facility to attend the AGM through VC/OAVM is available through the LIPL e-voting system at <https://instameet.linkintime.co.in>. Detailed procedure to attend AGM through VC is given in the Notice of AGM.

By Order of the Board of  
Cyber Media (India) Limited  
Sd/-  
Anoop Singh  
Company Secretary

New Delhi  
July 31, 2024

**MANKIND PHARMA LIMITED**  
Serving Life

Registered Office: 208, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110 020, Delhi, India; Tel.: +91 11 4747 6600  
Corporate Office: 262, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110 020, Delhi, India; Tel.: +91 11 4684 6700  
Email: [investors@mankindpharma.com](mailto:investors@mankindpharma.com), Website: [www.mankindpharma.com](http://www.mankindpharma.com), CIN: L74899DL1991PLC044843

**Extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024**  
(₹ in Crores except as stated otherwise)

S. No.	Particulars	Consolidated			
		For the quarter ended			For the year ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Revenue from operations	2,893.42	2,441.10	2,578.62	10,334.77
2	Profit for the period/year before tax	667.62	571.57	624.47	2,399.35
3	Profit for the period/year after tax	543.07	476.59	494.19	1,941.77
4	Total comprehensive income for the period/ year	539.97	468.23	490.89	1,933.75
5	Paid up equity share capital	N.A.	N.A.	N.A.	40.06
6	Other equity excluding revaluation reserve	N.A.	N.A.	N.A.	9,323.03
7	Earnings per equity share of face value of ₹ 1/- each				
	- Basic EPS (in ₹)	13.39	11.76	12.15	47.75
	- Diluted EPS (in ₹)	13.37	11.74	12.14	47.68
		(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	

The key standalone financial information is as under\* (₹ in Crores except as stated otherwise)

S. No.	Particulars	For the quarter ended			
		For the quarter ended			For the year ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Revenue from operations	2,403.26	1,996.55	2,092.28	8,558.51
2	Profit for the period/year before tax	577.37	512.74	484.92	2,119.05
3	Profit for the period/year after tax	484.25	430.59	379.78	1,719.88
4	Total comprehensive income for the period/year	512.15	446.80	406.59	1,816.71

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the Company's website: [www.mankindpharma.com](http://www.mankindpharma.com).
- The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on July 31, 2024.

\* The above Unaudited Standalone Financial Information is for continuing operations. Refer full format of the Quarterly Financial Results for discontinued operations.

For and on behalf of  
**MANKIND PHARMA LIMITED**  
Sd/-  
Ramesh Juneja  
Chairman and Whole Time Director  
DIN: 00283399

Place: New Delhi  
Date: July 31, 2024

...continued from previous page.

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects of the Company, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page 181 of the RHP. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 366 of the RHP.

**LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY:** Limited by shares.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** As on the date of the RHP, the authorised share capital of the Company is Equity share capital of ₹150,000,000 comprising 150,000,000 Equity Shares (having face value of ₹1 each), Preference Share capital comprising 11,350 Series A Preference Shares (having face value ₹100 each) of ₹1,135,000 and 13,090 Series B Preference Shares (having face value of ₹100 each) of ₹1,309,000. For details, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 82 of the RHP.

**NAMES OF SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** The initial signatories to the Memorandum of Association are Ankit Pruthi and Karun Singla who subscribed to 5,000 Equity Shares each bearing face value of ₹10. For details of the share capital history and capital structure of our Company, please see the section entitled "Capital Structure" beginning on page 82 of the RHP.

**LISTING:** The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on Stock Exchanges. Our Company has received an "in-principle" approval from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters both dated June 26, 2024. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and the Prospectus shall be delivered for filing to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013. For details of the material contracts and documents

available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 366 of the RHP.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):** SEBI only gives its observations on the Offer documents and the does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the Offer document. The investors are advised to refer to page 310 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of SEBI.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 312 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of NSE.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the RHP has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the RHP. The investors are advised to refer to page 311 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of BSE.

**GENERAL RISKS:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the RHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 29 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER	COMPLIANCE OFFICER
<b>IIFL SECURITIES</b>	<b>CLSA</b> A CITIC Securities Company	<b>LINKIntime</b>	Monish Pal Compliance Officer Tel: +91 1275 248345
<b>IIFL Securities Limited</b> 2 <sup>nd</sup> Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013, Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728, E-mail: <a href="mailto:unicommerce.ipo@iiflcap.com">unicommerce.ipo@iiflcap.com</a> Investor Grievance E-mail: <a href="mailto:ig.lib@iiflcap.com">ig.lib@iiflcap.com</a> Website: <a href="http://www.iiflcap.com">www.iiflcap.com</a> Contact Person: Mukesh Garg/ Pawan Jain SEBI Registration Number: INM000010940	<b>CLSA India Private Limited</b> 8/F Dalal House, Nariman Point, Mumbai 400 021, Maharashtra, India Tel: +91 22 6650 5050 E-mail: <a href="mailto:unicommerce.ipo@clsacm.com">unicommerce.ipo@clsacm.com</a> Investor Grievance E-mail: <a href="mailto:investor.helpdesk@clsacm.com">investor.helpdesk@clsacm.com</a> Website: <a href="http://www.india.clsacm.com">www.india.clsacm.com</a> Contact Person: Prachi Chandgotia/ Siddhant Thakur SEBI Registration Number: INM000010619	<b>Link Intime India Private Limited</b> C-101, 247 Park, 1 <sup>st</sup> Floor, L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 810 811 4949 E-mail: <a href="mailto:unicommerce.ipo@linkintime.co.in">unicommerce.ipo@linkintime.co.in</a> Investor Grievance E-mail: <a href="mailto:unicommerce.ipo@linkintime.co.in">unicommerce.ipo@linkintime.co.in</a> Website: <a href="http://www.linkintime.co.in">www.linkintime.co.in</a> , Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration Number: INR000004058	Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, Investors may also write to the BRLM.

**AVAILABILITY OF THE RHP:** Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 29 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and is available on the websites of the the Company at [www.unicommerce.com](http://www.unicommerce.com) and BRLMs, i.e. **IIFL Securities Limited** at [www.iiflcap.com](http://www.iiflcap.com) and **CLSA India Private Limited** at [www.india.clsacm.com](http://www.india.clsacm.com), respectively and on the websites of BSE and NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively.

**AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS:** A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLMs and the Registrar to the Offer at [www.unicommerce.com](http://www.unicommerce.com), [www.iiflcap.com](http://www.iiflcap.com) and [www.india.clsacm.com](http://www.india.clsacm.com) and [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in)

**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS:** Bid-cum-Application Forms can be obtained from the Registered Office of the Company **Unicommerce eSolutions Limited**, Tel: +91 9311749240 the BRLMs: **IIFL Securities Limited**, Tel: +91 22 4646 4728 and **CLSA India Private Limited** Tel: +91 22 6650 5050. At the select locations of the Sub-Syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

**Sub-syndicate members:** Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd; Axis Capital Limited; ICICI Securities Limited; IIFL Securities Limited; JM Financial Services Limited; Kotak Securities Limited; LKP Securities Ltd.; Motilal Oswal Financial Services Limited; Nuvama Wealth and Investment Limited (Formerly known as Edelweiss Broking Limited); Pravin Rathi Share & Stock Brokers Ltd.; RR Equity Brokers Pvt. Ltd.; SBICAP Securities Ltd.; ShareKhan Limited; SMC Global Securities Ltd.; YES Securities (India) Ltd.

**Escrow Collection Bank, Refund Bank and Sponsor Bank:** Axis Bank Limited.

**Public Offer Account Bank and Sponsor Bank:** HDFC Bank Limited.

**UPI:** UPI Bidders can also bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

Place: New Delhi  
Date: July 31, 2024

For Unicommerce eSolutions Limited  
Sd/-  
Monish Pal  
Compliance Officer

**UNICOMMERCE ESOLUTIONS LIMITED** is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP dated July 30, 2024 with the RoC. The RHP shall be available on the website of the Company at [www.unicommerce.com](http://www.unicommerce.com), SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and the BRLMs, i.e. **IIFL Securities Limited** and **CLSA India Private Limited** at [www.iiflcap.com](http://www.iiflcap.com) and [www.india.clsacm.com](http://www.india.clsacm.com), respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 29 of the RHP. Potential Bidders may rely on the information disclosed in the RHP as being true and correct.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in compliance with, Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

Adfactors

# निजी बस संचालकों ने ममता बनर्जी से पुराने वाहनों के लिए और दो साल का समय मांगा

कहा, आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे वाहन मालिक नए बीएस-6 मानक अनुरूप वाहन खरीदने में असमर्थ हैं

कोलकाता, 31 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल बस एवं मिनी बस मालिक संघ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अगस्त माह से 15 वर्ष पुराने व्यवसायिक वाहनों के संचालन चरणबद्ध तरीके से बंद करने की समय-सीमा दो साल और बढ़ाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में संघ ने कहा कि कोलकाता और हावड़ा में चलने वाली दो हजार बसें एक आगस्त के बाद प्रदूषण मानकों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार करने की वजह से सड़कों से हटानी पड़ेंगी। उसने कहा कि कोरोना संक्रमण और लाकडाउन के बीच आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे वाहन मालिक नए बीएस-6 मानक अनुरूप वाहन खरीदने में असमर्थ हैं। संघ के महासचिव प्रदीप नारायण बोस ने कहा



संघ के महासचिव प्रदीप नारायण बोस ने कहा कि क्या हम संघर्षरत बस और मिनीबस उद्योग को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक संक्षिप्त बैठक का अनुरोध कर सकते हैं? हम परिवहन विभाग से 15 साल की समय सीमा को दो साल के लिए बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। इनमें से कई वाहन लाकडाउन के दौरान सड़कों से नदारद थे और इससे उस अवधि के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण में इनका कोई योगदान नहीं था।

कि क्या हम संघर्षरत बस और मिनीबस उद्योग को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक संक्षिप्त बैठक का अनुरोध कर सकते हैं? हम परिवहन विभाग से 15 साल की समय सीमा को दो साल के लिए बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। इनमें से कई वाहन लाकडाउन के दौरान

सड़कों से नदारद थे और इससे उस अवधि के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण में इनका कोई योगदान नहीं था। दो साल का विस्तार देने से इन वाहनों का संचालन जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी। बोस ने पत्र में राज्य सरकार से निजी बस और मिनी बस सेवाओं पर निर्भर

हजारों परिवारों के समझ आ रही कठिनाइयों पर भी विचार करने की अपील की।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर 2009 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश में वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित कर दी है। इसकी वजह से अगस्त से कोलकाता और आसपास के जिलों में चलने वाले 30 हजार वाहनों में से 80 फीसद को सड़कों से हटाना पड़ेगा। परिवहन मंत्री झेहाशीष चक्रवर्ती ने इससे पहले कहा था कि सरकार निजी बस और मिनी बस संचालकों के सामने आ रही चुनौतियों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने की आवश्यकता के आगे विवश है। उन्होंने बस मालिकों को अदालत का दरवाजा खटखटाने का सुझाव दिया।

# न्यू जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा, कोई हताहत नहीं

कोलकाता, 31 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेल मंडल में रंगापानी स्टेशन के पास बुधवार को मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सव्यसाची डे ने बताया कि मालगाड़ी रंगापानी की ओर जा रही थी और पूर्वार्द्ध 11:45 बजे उसका खाली पेट्रोलियम डिब्बा पटरी से उतर गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेल यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सव्यसाची डे ने बताया कि रेलकर्मियों ने पटरी से उतरे डिब्बे को तुरंत हटाकर पटरी खाली कर दी, ताकि अन्य रेलगाड़ियों के संचालन में व्यवधान न हो। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर 17 जून को सियालदह जा रही कंचनजंघा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में रेलगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान, घटना

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सव्यसाची डे ने बताया कि रेलकर्मियों ने पटरी से उतरे डिब्बे को तुरंत हटाकर पटरी खाली कर दी, ताकि अन्य रेलगाड़ियों के संचालन में व्यवधान न हो।

घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर 17 जून को सियालदह जा रही कंचनजंघा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में रेलगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और 10 लोगों की मौत हो गई थी।

पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि जो हो रहा है उससे हम बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के फांसीदेवा/रंगापानी में टीक उसी जगह आज दूसरा हादसा हुआ है, जहां छह हफ्ते पहले सबसे भीषण दुर्घटना हुई थी। मंगलवार को झारखंड के सरायकेला-खरसावा जिले में हावड़ा-मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए थे।

# मंत्री फिरहाद हकीम की इस्लाम से जुड़ी टिप्पणी पर भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया

कोलकाता, 31 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने हाल में एक कार्यक्रम में चरित्र मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता फिरहाद हकीम की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए बुधवार को बहिर्गमन किया। भाजपा विधायकों ने हकीम की उस टिप्पणी का विरोध किया कि गैर-मुसलमानों के बीच इस्लाम का प्रसार करने की जरूरत है। भाजपा के विधायकों ने तीन बार बहिर्गमन किया।

शहरी विकास मंत्री हकीम ने दावा किया कि उनकी टिप्पणियों का राजनीति और समाज से कोई संबंध नहीं है और वह धर्मनिरपेक्ष बने रहेंगे। मुख्य सचेतक शंकर घोष के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने मांग की कि हकीम अपनी टिप्पणी वापस लें।

हकीम ने कहा कि मैं हमेशा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति रहा हूँ। धार्मिक कार्यक्रम में मैंने जो



हकीम ने कहा कि मैं हमेशा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति रहा हूँ। मैंने जो भी टिप्पणी की, उसका राजनीति और समाज से कोई लेना-देना नहीं है।

भी टिप्पणी की, उसका राजनीति और समाज से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक बना रहूंगा। कोलकाता के महापौर हकीम के भाषण के बीच, भाजपा विधायकों ने तीसरी बार सदन से बहिर्गमन किया। इसे असंवैधानिक और अभूतपूर्व करार देते हुए, अध्यक्ष विमान बंधोपाध्याय ने भाजपा के विधायकों से विधानसभा की मर्यादा का

पालन करने का आग्रह किया। तृणमूल विधायकों ने भाजपा विधायकों के बार-बार बहिर्गमन करने का विरोध किया। कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि अपने 30 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी किसी विपक्षी पार्टी को इस तरह से काम करने नहीं देखा। चट्टोपाध्याय ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा बाहर किसी कार्यक्रम में की गई टिप्पणी का सदन से कोई संबंध नहीं है।

इस पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के लोग 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को राज्य से बाहर कर देंगे। इस महीने की शुरुआत में आयोजित आल इंडिया कुरान प्रतियोगिता में हकीम की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया था। हकीम ने कहा था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं, वे बदकिस्मत हैं। वे बदकिस्मती लेकर पैदा होते हैं। हमें उन्हें इस्लाम के दायरे में लाना होगा।



वार्ता

दक्षिण 24 परगना जिले में बुधवार को ट्रेनों के संचालन में देरी के विरोध में डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन को अवरुद्ध करने वाले यात्रियों से पुलिस कर्मियों ने बातचीत की।

# मनरेगा पर श्वेत पत्र जारी करने से डर क्यों : तृणमूल

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 31 जुलाई।

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के मनरेगा-आवास योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग दोहराई है।

पार्टी ने पश्चिम बंगाल के बकाए से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार अभिषेक बनर्जी की चुनौती को स्वीकार कर, श्वेत पत्र जारी करने से क्यों डर रही है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि मैंने अपने संबोधन में अभिषेक बनर्जी की मांग पर स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री से जवाब मांगा। श्वेत पत्र जारी कर यह बताने का आग्रह किया है कि 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा

की हार के बाद पश्चिम बंगाल को एक रूपया भी दिया गया या नहीं। गोखले ने निशाना साधते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डर गईं और अपने जवाब में उन्होंने इसपर कोई टिप्पणी नहीं की।

पश्चिम बंगाल के बकाए से अवैध तौर पर वंचित रखने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने विपक्ष शासित राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से वंचित नहीं करने के दावों को खारिज किया है। उधर, कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की विधायक और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र ने बंगाल का 1.72 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं की है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इससे साफ है कि मनरेगा पर पार्टी ने जो बयान दिए हैं, सही थे।

# सलाहकार समिति की बैठक में जूट क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा

कोलकाता, 31 जुलाई (भाषा)।

भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय राजधानी में 32वीं स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया, जिसमें जूट बैग की घटती मांग के कारण क्षेत्र के समझ पेश होने वाली चुनौतियां भी शामिल हैं। चीनी और प्लास्टिक उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों जैसे प्रमुख हितधारकों ने मंगलवार को हुई बैठक में हिस्सा लिया।

एसएसी केंद्र सरकार को जूट (पटसन) पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग और खाद्यान्न तथा चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए पैकेजिंग मानदंडों पर सिफारिशें करती है। आइजेएमए अधिकारियों ने बताया कि जूट आयुक्त कार्यालय (जेसीओ) ने इस क्षेत्र को समर्थन देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस उद्योग पर चार करोड़ किसान और 3.5 लाख जूट मिल श्रमिक के निर्भर होने का अनुमान है। चीनी उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने जूट की बोरियों की कीमत तथा गुणवत्ता के बारे में चिंता जाहिर की।

# कांग्रेस की बंगाल इकाई में बदलाव पर माकपा एवं तृणमूल की नजर

कोलकाता, 31 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई में आसन्न नेतृत्व परिवर्तन पर माकपावादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी करीब से नजर रख रही है, क्योंकि इससे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर तीनों दल विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं लेकिन कांग्रेस-वाम गठबंधन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों का विरोध करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) में पश्चिम बंगाल के प्रभारी एवं पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहे अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से

# अधीप नाथ पाल चौधरी बने बामर लारी एंड कंपनी के सीएमडी

कोलकाता, 31 जुलाई (भाषा)। अधीप नाथ पाल चौधरी ने विविध सार्वजनिक उपक्रम बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पद का कार्यभार संभाल लिया है।

उन्होंने आदिका रत्न शेखर का स्थान लिया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, पाल चौधरी सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

वह सेवा कारोबार की देखरेख भी करते रहेंगे।

**डेन नेटवर्क्स लिमिटेड**  
हमारा हेल्पलाइन नम्बर बदल गया है। अब आप हमसे इस नम्बर पर सम्पर्क का सकते हैं:  
**1800 891 2890**

**रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**  
CIN: L65999WB1992PLC055224  
2थी, ग्रैंट रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता - 700 012, पश्चिम बंगाल, भारत  
देलीफोन: +91-33-30230347, +91-8589996513  
ईमेल: rfsi.nbf@gmail.com; वेबसाइट: https://www.rfsi.co.in/index.html

**सार्वजनिक सूचना**  
एनएचएल सार्वजनिक सूचना की जाती है कि, भारतीय प्रौद्योगिकी और विनिर्माण बोर्ड (इंक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनिर्माण, 2021 के विनियमन 6(1)(सी) के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, कंपनी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से अपने इंक्विटी शेयरों को वैश्विक डीलिंग में लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है।  
**डिलीटिंग की आवश्यकता और उद्देश्य:**  
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को देब लिस्टिंग शुल्क पर आवंटित व्यय को बचाना, जहाँ कंपनी के इंक्विटी शेयरों का व्यापार संचालन है। न्यूक कंपनी के इंक्विटी शेयर 'बीएसई लिमिटेड' (बीएसई) पर सूचीबद्ध होते रहेंगे, जो एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है और जिसके पास राष्ट्रीयपट्टी टर्मिनल है, इसलिए बीएसई से इंक्विटी शेयरों की डीलिंगिंग से निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।  
कंपनी के इंक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होते रहेंगे।  
रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए हस्ता./- यद्यपि मिल चाको जॉर्जकुट्टी प्रबंध निदेशक डीआरईन: 09194854

**Mankind Pharma Limited**  
Serving Life

**MANKIND PHARMA LIMITED**  
Registered Office: 208, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110 020, Delhi, India; Tel.: +91 11 4747 6600  
Corporate Office: 262, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110 020, Delhi, India; Tel.: +91 11 4684 6700  
Email: investors@mankindpharma.com, Website: www.mankindpharma.com, CIN: L74899DL1991PLC044843

**Extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024**  
(₹ in Crores except as stated otherwise)

S. No.	Particulars	Consolidated			
		For the quarter ended		For the year ended	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Revenue from operations	2,893.42	2,441.10	2,578.62	10,334.77
2	Profit for the period/year before tax	667.62	571.57	624.47	2,399.35
3	Profit for the period/year after tax	543.07	476.59	494.19	1,941.77
4	Total comprehensive income for the period/ year	539.97	468.23	490.89	1,933.75
5	Paid up equity share capital	N.A.	N.A.	N.A.	40.06
6	Other equity excluding revaluation reserve	N.A.	N.A.	N.A.	9,323.03
7	Earnings per equity share of face value of ₹ 1/- each				
	- Basic EPS (in ₹)	13.39	11.76	12.15	47.75
	- Diluted EPS (in ₹)	13.37	11.74	12.14	47.68
	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)

**The key standalone financial information is as under:** (₹ in Crores except as stated otherwise)

S. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	
1	Revenue from operations	2,403.26	1,996.55	2,092.28	8,558.51
2	Profit for the period/year before tax	577.37	512.74	484.92	2,119.05
3	Profit for the period/year after tax	484.25	430.59	379.78	1,719.88
4	Total comprehensive income for the period/year	512.15	446.80	406.59	1,816.71

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.mankindpharma.com.
- The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on July 31, 2024.

\* The above Unaudited Standalone Financial Information is for continuing operations. Refer full format of the Quarterly Financial Results for discontinued operations.

For and on behalf of  
**MANKIND PHARMA LIMITED**  
Sd/-  
**Ramesh Juneja**  
Chairman and Whole Time Director  
DIN: 00283399

Place: New Delhi  
Date: July 31, 2024

বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমস লিমিটেড  
www.bvsl.com  
১৫১, বঙ্গবন্ধু সড়ক, কলকাতা-৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত  
ফোন: ৯১-৩৩-২৩৩৩৩৩৩, ৯১-৯৮৪৯৯৯৯৯৯  
E-mail: info@bvsl.com, Website: www.bvsl.com, bvsl.com

কলকাতা-১৩, ৯-২০২৪  
পূর্ব: কলকাতা

**TENDER & NOTICE**

**Mushan India Limited**  
কলকাতা-১৩, ৯-২০২৪  
পূর্ব: কলকাতা

**QIG, Govt of West Bengal**  
Notification is hereby invited by the Executive Engineer, Bihannagar IT Division, PWD, for the installation of 115, 1st Floor DF Block Purba Baran Sector-1, Saitlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:

**Temporary Installation of Cots at World Indigenous Public meeting venue from the date of ASL to 09.08.24 in connection with VIP address in PWD for observation of International day of World Indigenous people 2**  
**Temporary Installation of Sound systems at public meeting ground Jhargram in connection with VIP address in PWD for observation of International day of World Indigenous people 3**  
**Temporary Installation of Video set up LED Screens & video conferencing system in connection with public meeting in presence of VVIPs on 09.08.24 at Jhargram for observation of International day of World Indigenous people 4**  
**SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No. WBPWD/SE/IT/10/04/WBPD/DE/1/BIT/NIQ-06of2024-25. Last date of submission of Quotation: 09.08.2024 upto 11:30AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website: www.wbid.in**

**গ্যাজেট নোটিশ**  
কলকাতা-১৩, ৯-২০২৪  
পূর্ব: কলকাতা

**কলকাতা-১৩, ৯-২০২৪**  
পূর্ব: কলকাতা

**কলকাতা-১৩, ৯-২০২৪**  
পূর্ব: কলকাতা

**BALIGRAN PANCHAYAT**  
**TENDER REFERENCE NO. WB/CORP/CG/IBALI/19/24-25**  
**NIT No:195/BGP/2024, Dated: 31/07/2024**  
Prohdan Bali Gram Panchayat invites online tender for 7 (Seven) nos works under SBM (G) III Fund. Tender forms and other details may be obtained from Chief Executive Officer, Last date of submission of bid online in 13/08/2024 upto 12.00 hrs.

e-Tender has invited by the Executive Officer, Serampore, Uttarpara Panchayat Family vide NIT No.: 04/8U/2024-26 & Memo No.: 648/5U, Date: 31.07.2024 for Construction of Masonry covered Drain, AWC Kichen Shed & Run/Antisand Shed under Serampore-Uttarpara Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: 09.07.2024 up to 01.00 PM. Tender ID No. 2024\_WBSPH\_725354\_1 to 3. For further details, visit [www.wbtenders.gov.in](http://www.wbtenders.gov.in) under the following Office:

**West Bengal Police Tender and Infrastructure Development**  
Tender for Laid out 3rd floor, A/c, Bhaman, Block-DJ, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-70 in inviting open tender on the expenditure account for works as follows:  
**1) WBPHD/ICE/IT/NO-11/2024-25, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_1, II) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_2, III) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_3, IV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_4, V) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_5, VI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_6, VII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_7, VIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_8, IX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_9, X) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_10, XI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_11, XII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_12, XIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_13, XIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_14, XV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_15, XVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_16, XVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_17, XVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_18, XIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_19, XX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_20, XXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_21, XXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_22, XXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_23, XXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_24, XXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_25, XXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_26, XXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_27, XXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_28, XXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_29, XXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_30, XXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_31, XXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_32, XXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_33, XXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_34, XXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_35, XXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_36, XXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_37, XXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_38, XXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_39, XL) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_40, XLI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_41, XLII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_42, XLIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_43, XLIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_44, XLV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_45, XLVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_46, XLVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_47, XLVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_48, XLIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_49, L) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_50, LI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_51, LII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_52, LIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_53, LIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_54, LV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_55, LVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_56, LVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_57, LVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_58, LIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_59, LX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_60, LXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_61, LXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_62, LXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_63, LXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_64, LXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_65, LXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_66, LXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_67, LXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_68, LXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_69, LXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_70, LXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_71, LXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_72, LXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_73, LXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_74, LXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_75, LXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_76, LXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_77, LXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_78, LXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_79, LXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_80, LXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_81, LXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_82, LXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_83, LXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_84, LXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_85, LXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_86, LXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_87, LXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_88, LXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_89, LXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_90, LXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_91, LXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_92, LXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_93, LXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_94, LXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_95, LXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_96, LXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_97, LXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_98, LXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_99, LXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_100, LXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_101, LXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_102, LXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_103, LXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_104, LXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_105, LXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_106, LXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_107, LXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_108, LXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_109, LXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_110, LXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_111, LXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_112, LXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_113, LXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_114, LXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_115, LXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_116, LXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_117, LXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_118, LXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_119, LXXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_120, LXXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_121, LXXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_122, LXXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_123, LXXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_124, LXXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_125, LXXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_126, LXXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_127, LXXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_128, LXXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_129, LXXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_130, LXXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_131, LXXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_132, LXXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_133, LXXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_134, LXXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_135, LXXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_136, LXXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_137, LXXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_138, LXXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_139, LXXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_140, LXXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_141, LXXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_142, LXXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_143, LXXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_144, LXXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_145, LXXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_146, LXXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_147, LXXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_148, LXXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_149, LXXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_150, LXXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_151, LXXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_152, LXXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_153, LXXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_154, LXXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_155, LXXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_156, LXXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_157, LXXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_158, LXXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_159, LXXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_160, LXXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_161, LXXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_162, LXXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_163, LXXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_164, LXXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_165, LXXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_166, LXXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_167, LXXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_168, LXXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_169, LXXXXXXX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_170, LXXXXXXXI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_171, LXXXXXXXII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_172, LXXXXXXXIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_173, LXXXXXXXIV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_174, LXXXXXXXV) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_175, LXXXXXXXVI) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_176, LXXXXXXXVII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_177, LXXXXXXXVIII) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_723888\_178, LXXXXXXXIX) e-NIT-2024-04(Four)/Sandipur G.P./XV/FC/2024-2025, Tender ID: 2024\_ZPHD\_72**